

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2018—अग्रहायण 23, शक 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कलकत राम गेन्ड्रे आत्मज स्व. कोन्दा गेन्ड्रे, उम्र 78 वर्ष, निवासी-म. नं.-5 सतनामी पारा, रिसाली बस्ती, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मुझे अमील दास के नाम से जाना जाता था, जो कि मेरा घरेलू नाम है. मेरी कृषि भूमि व मकान के राजस्व रिकार्ड में मेरा पुराना घरेलू नाम ही दर्ज है. मैं अपने पूर्व घरेलू नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम “कलकत रामगेन्ड्रे” रख लिया हूं. मेरा यह नया नाम/उपनाम मेरे आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि में दर्ज है. मैं अपने नये नाम/उपनाम “कलकत राम गेन्ड्रे” को मेरे राजस्व रिकार्ड व अन्य सभी आवश्यक शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे कलकत राम गेन्ड्रे आ. स्व. कोन्दा गेन्ड्रे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

अमील दास
पिता- स्व. कोन्दा गेन्ड्रे
निवासी-म. नं.-5 सतनामी पारा,
रिसाली बस्ती, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

कलकत राम गेन्ड्रे
पिता- स्व. कोन्दा गेन्ड्रे
निवासी-म. नं.-5 सतनामी पारा,
रिसाली बस्ती, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भगेला राम देवांगन आत्मज श्री सुन्दर लाल देवांगन, निवासी-शिवाजी नगर दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मुझे भगवानी राम देवांगन के नाम से भी जाना जाता था। यह नाम मेरे सर्विस रिकार्ड, पेन कार्ड व ड्रायविंग लायसेंस में दर्ज है, जबकि मेरा सही व वास्तविक नाम भगेला राम देवांगन है, जो कि मेरे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। मैं अपने सही नाम “भगेला राम देवांगन” आ. श्री सुन्दर लाल देवांगन को मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों/अभिलेखों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे भगेला राम देवांगन आ. श्री सुन्दर लाल देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

भगवानी राम देवांगन
पिता-श्री सुन्दर लाल देवांगन
निवासी-शिवाजी नगर दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

भगेला राम देवांगन
पिता-श्री सुन्दर लाल देवांगन
निवासी-शिवाजी नगर दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संदीप अग्रवाल आत्मज श्री रामलाल अग्रवाल, उम्र 41 वर्ष, निवासी-238-बी, समता कालोनी, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मैं संदीप गुप्ता, संदीप कुमार गुप्ता (सिंघल), संदीप कुमार, संदीप सिंघल (गुप्ता) आ. श्री रामलाल गुप्ता (सिंघल) के नाम से जाना जाता था। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम संदीप अग्रवाल आ. श्री रामलाल अग्रवाल रख लिया हूँ तथा वर्तमान में मैं इसी नाम से जाना, पहचाना जाता हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे संदीप अग्रवाल आ. श्री रामलाल अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

संदीप गुप्ता, संदीप कुमार गुप्ता (सिंघल),
संदीप कुमार, संदीप सिंघल (गुप्ता),
पिता-श्री रामलाल गुप्ता (सिंघल)
निवासी-238-बी,
समता कालोनी, रायपुर,
तह. व जिला रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

संदीप अग्रवाल
पिता-श्री रामलाल अग्रवाल
निवासी-238-बी,
समता कालोनी, रायपुर,
तह. व जिला रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ईश्वर सिंह ठाकुर आत्मज स्व. होशियार सिंह ठाकुर, उम्र 57 वर्ष, निवासी-360, वार्ड नं.-18, सुरडुंग, हनुमान मंदिर के पास, शहीद वीर नारायण, जामुल, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे समस्त शासकीय प्रमाण पत्रों में, आधार कार्ड, पैनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र में मेरा पूर्ण व सही नाम ईश्वर सिंह ठाकुर दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम ईश्वर सिंह दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपने पूर्ण नाम “ईश्वर सिंह ठाकुर” को मेरे सर्विस रिकार्ड व सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों/अभिलेखों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे ईश्वर सिंह ठाकुर आ. स्व. होशियार सिंह ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

ईश्वर सिंह
पिता-स्व. होशियार सिंह ठाकुर
निवासी-360, वार्ड नं.-18, सुरडुंग,
हनुमान मंदिर के पास,
शहीद वीर नारायण, जामुल, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

ईश्वर सिंह ठाकुर
पिता-स्व. होशियार सिंह ठाकुर
निवासी-360, वार्ड नं.-18, सुरडुंग,
हनुमान मंदिर के पास,
शहीद वीर नारायण, जामुल, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जीवन लाल श्रीवास, आत्मज श्री सुखीराम श्रीवास, उम्र 59 वर्ष, निवासी-73, वार्ड नं.-08, बजरंग नगर, कोहका, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, बैंक खाता व अन्य शासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में मेरा नाम जीवन लाल श्रीवास (Jivan Lal Shrivass) आ. श्री सुखीराम श्रीवास दर्ज है। जो कि पूर्ण व सही है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम जीवन लाल (Jeewan Lal) दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है। मैं अपने सही व पूर्ण नाम “जीवन लाल श्रीवास (Jivan Lal Shrivass)” आ. श्री सुखीराम श्रीवास को मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे जीवन लाल श्रीवास (Jivan Lal Shrivass) आ. श्री सुखीराम श्रीवास के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

जीवन लाल (Jeewan Lal)
पिता-श्री सुखीराम श्रीवास
निवासी-73, वार्ड नं.-08,
बजरंग नगर, कोहका, भिलाई,
तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

जीवन लाल श्रीवास
(Jivan Lal Shrivass)
पिता-श्री सुखीराम श्रीवास
निवासी-73, वार्ड नं.-08,
बजरंग नगर, कोहका, भिलाई,
तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अमर नाथ जॉंगड़े आत्मज स्व. बिरछराम जॉंगड़े, उम्र 50 वर्ष, जाति सूर्यवंशी, निवासी-म. नं.-45, वैष्णवी विहार अमेरी, तहसील तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे पुत्र आशीष नाथ जॉंगड़े, जो कि कक्षा 8वीं, का छात्र है, उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, स्कूल रिकार्ड में उसका नाम आशीष नाथ आ. अमर नाथ दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपने पुत्र के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, स्कूल रिकार्ड व अन्य सभी आवश्यक शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में उसका पूर्ण नाम “आशीष नाथ जॉंगड़े (Ashish Nath Jangre) आ. अमर नाथ जॉंगड़े (Amar Nath Jangre) व माता श्रीमती रजनी जॉंगड़े (Smt. Rajni Jangre)” दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मेरे पुत्र को आशीष नाथ जॉंगड़े (Ashish Nath Jangre) आ. श्री अमर नाथ जॉंगड़े (Amar Nath Jangre) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

आशीष नाथ
पिता-श्री अमर नाथ
निवासी-म. नं.-45,
वैष्णवी विहार अमेरी,
तहसील-तखतपुर,
जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

आशीष नाथ जॉंगड़े
(Ashish Nath Jangre)
पिता-श्री अमर नाथ जॉंगड़े
(S/o- Shri Amar Nath Jangre)
निवासी-म. नं.-45,
वैष्णवी विहार अमेरी,
तहसील-तखतपुर,
जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अमर नाथ जॉंगड़े आत्मज स्व. बिरछराम जॉंगड़े, उम्र 50 वर्ष, जाति सूर्यवंशी, निवासी-म. नं.-45, वैष्णवी विहार अमेरी, तहसील तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरी पुत्री सोनल सिंह जॉंगड़े, जो कि कक्षा 9वीं, की छात्रा है, उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व स्कूल रिकार्ड में उसका नाम सोनल सिंह आत्मजा अमर नाथ दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपनी पुत्री के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व स्कूल रिकार्ड में उसका पूर्ण नाम सोनल सिंह जॉंगड़े (Sonal Singh Jangre) आत्मजा अमर नाथ जॉंगड़े (Amar Nath Jangre) व माता श्रीमती रजनी जॉंगड़े (Smt. Rajni Jangre) दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मेरी पुत्री को सोनल सिंह जॉंगड़े (Sonal Singh Jangre) आत्मजा श्री अमर नाथ जॉंगड़े (Amar Nath Jangre) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

सोनल सिंह
पिता-श्री अमर नाथ
निवासी-म. नं.-45,
वैष्णवी विहार अमेरी,
तहसील-तखतपुर,
जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

सोनल सिंह जॉंगड़े
(Sonal Singh Jangre)
पिता-श्री अमर नाथ जॉंगड़े
(D/o- Shri Amar Nath Jangre)
निवासी-म. नं.-45,
वैष्णवी विहार अमेरी,
तहसील-तखतपुर,
जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जितेश चतवानी आत्मज स्व. महेन्द्र चतवानी, उम्र 45 वर्ष, निवासी-लक्ष्मीकुंज, जी. ई. रोड, रायपुर नाका, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम जितेन्द्र कुमार चतवानी था तथा यह नाम मेरे पैनकार्ड में दर्ज है मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम जितेश चतवानी रख लिया हूँ. मेरा यह नया नाम मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व आधार कार्ड में दर्ज है. मैं अपने नये नाम को मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों व अभिलेखों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब मुझे जितेश चतवानी आ. स्व. महेन्द्र चतवानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

जितेन्द्र कुमार चतवानी
पिता-स्व. महेन्द्र चतवानी
निवासी-लक्ष्मीकुंज, जी. ई. रोड,
रायपुर नाका,
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नया नाम

जितेश चतवानी
पिता-स्व. महेन्द्र चतवानी
निवासी-लक्ष्मीकुंज, जी. ई. रोड,
रायपुर नाका,
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ब्रिजेश कुमार गोले आत्मज श्री एस. एल. गोले, उम्र 41 वर्ष, जाति राजपूत ठाकुर, निवासी-27 खोली, विकास नगर, बिलासपुर थाना, सिविल लाईन, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम ब्रिजेश कुमार गोले था, जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य शासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम ब्रिजेश कुमार गहलोत आ. श्री एस. एल. गहलोत रख लिया हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम/उपनाम “ब्रिजेश कुमार गहलोत आ. श्री एस. एल. गहलोत” मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड व पासपोर्ट में दर्ज है. मैं अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में मेरा नया नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब मुझे ब्रिजेश कुमार गहलोत आ. श्री एस. एल. गहलोत के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

डॉ. ब्रिजेश कुमार गोले
पिता-श्री एस. एल. गोले
निवासी-27 खोली, विकास नगर,
बिलासपुर थाना, सिविल लाईन,
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

डॉ. ब्रिजेश कुमार गहलोत
पिता-श्री एस. एल. गहलोत
निवासी-27 खोली, विकास नगर,
बिलासपुर थाना, सिविल लाईन,
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीयन अधिकारी खैरागढ़ जिला-राजनांदगांव

खैरागढ़, दिनांक 04 अक्टूबर 2018

क्रमांक/329/प्र-1/अ. वि. अ./2018.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक डॉ. शशिकांत फटींग पिता रामा फटींग निवासी एच. आई. जी. 58 हुडको, आमदी नगर भिलाई जिला-दुर्ग (छ. ग.) द्वारा ट्रस्ट का नाम “गायत्री परिवार ट्रस्ट पवनतरा (जालबांधा) तहसील खैरागढ़”, पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतएव गायत्री परिवार ट्रस्ट पवनतरा (जालबांधा) तहसील खैरागढ़ जिला राजनांदगांव लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने में किसी को भी किसी प्रकार की आपत्ति हो तो अपना आक्षेप ईशतहार प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं, बाद में प्राप्त आक्षेपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 04-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी।

(सी. पी. बघेल)

अनुविभागीय अधिकारी एवं
लोक न्यास पंजीयन अधिकारी.

कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलासपुर, छ. ग.

बिलासपुर, दिनांक 03 दिसम्बर 2018

रा. प्र. क्र. 01/ब-113 (1)/2018-19

क्रमांक/709/लो. न्या./अ. वि. अ./वा-1/2018.—आवेदक डॉ. दीपक जायसवाल पिता स्व. डॉ. रामस्वरूप जायसवाल एवं श्रीमती सुदीपा जायसवाल पति राहुल चौकसे, निवासी ट्रस्ट कार्यालय अपोलो फार्मसी के सामने मेनरोड विद्यानगर बिलासपुर ने आवेदन पत्र प्रस्तुत निवेदन किया है कि-

1. यह कि मैं एवं मेरा परिवार विगत 30 वर्षों से श्रमिक क्षेत्र में श्रमिकों एवं समाज कल्याण संबंधी कार्य कर रहे हैं।
2. यह कि देश में 47 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले मजदूर हैं, जबकि हमारे देश के संविधान में कई अधिकार आम जनता को दिये हैं। सरकार के द्वारा भी विगत 70 वर्षों से बड़े स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं।
3. यह कि देश में आर्थिक विषमताएँ, गरीबी, कुपोषण, अन्याय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। इसलिए हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है कि एक संस्था का गठन कर एक प्लेटफार्म तैयार किया जाए, जिसकी विधिक मान्यता हो, जिसके माध्यम से शिक्षित कर, जागरूक एवं सतर्क कर, जो अधिकार संविधान-कानून में प्राप्त है, वे वंचित वर्ग को प्राप्त हो सके।
4. यह कि डीड में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए “FIGHT FOR RIGHT” फाईट फॉर राईट नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण किया है, तथा पंजीयक द्वारा डीड पंजीकृत कराई गई है।
5. यह कि राशि रु. 40,000/- की नगद राशि से ट्रस्ट की शुरुआत की गई है, जो ट्रस्ट को सौंप दी गई है।
6. यह कि ट्रस्ट के पंजीकृत मुख्यालय हेतु एक कमरा, लेट-बाथ सहित, तीन वर्षों के लिए विद्यानगर मेन रोड पर लिया गया है।
7. उक्त लीज/किराया रु. 2000/- प्रतिवर्ष पर तीन वर्षों के लिए लिया गया है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकेगा।

8. यह कि पंजीकृत कार्यालय “फाईट फॉर राईट” मेनरोड विद्यानगर बिलासपुर छ. ग. है.
9. यह कि ट्रस्ट जन कल्याण की भावना से “नॉन गवर्नमेंट-नॉन-प्रॉफिट” संगठन के रूप में कार्य करेगा.
10. यह कि हमारी नीति जानकारी अनुसार इस नाम से कोई भी ट्रस्ट अथवा अन्य एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था नहीं है.
11. यह कि आवेदक फाऊंडर ट्रस्टी तथा अन्य ट्रस्टी का आचरण पूर्णतया साफ-सुथरा है तथा कोई भी अपराधिक प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है.
12. यह कि इस संगठन के पंजीयन से, जो न्याय एवं अधिकार से वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, शिक्षा, रोजगार हेतु कौशल विकास, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि सभी प्रकार के लाभ वंचित वर्गों को प्राप्त होगा.

उपरोक्त उल्लेखित ट्रस्ट “FIGHT FOR RIGHT” फाईट फॉर राईट का पंजीयन करने का निवेदन किया है.

उपरोक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति/दावा हो तो आप स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से दिनांक- 20-12-2018 तक आपत्ति/दावा प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति/दावा पर विचार नहीं किया जावेगा.

कृपया उपरोक्त सूचना का प्रकाशन राजपत्र में प्रकाशित कराकर, प्रकाशित राजपत्र की दो प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पंजीयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके.

(देवेन्द्र पटेल)

पंजीयक

लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी (छ. ग.)

धमतरी, दिनांक 23 अक्टूबर 2018

[छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपपंथ/परिसमापन/2018/2092.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपपंथ/परिसमापन/2015/73 धमतरी दिनांक 16-04-2015 के द्वारा जय विश्वकर्मा श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित भखारा, पं. क्र. 77 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री बेदप्रकाश साहू, उप अंकेक्षक धमतरी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं किरन गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-19/15-02/2012/03 दिनांक 4 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए जय विश्वकर्मा श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित भखारा, पं. क्र. 77 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करती हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 23-10-2018 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

किरन गुप्ता,

उप पंजीयक.